



**सराहनीय कार्य थाना शिवरतनगंज व एसओजी अमेठी
पुलिस मुठभेड़ में लूट का शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 खोखा
कारतूस 315 बोर व लूट के रूपये 10,300/- नगद बरामद ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के घर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह थाना शिवरतनगंज मय हमराही, उ0नि0 विनोद यादव प्रभारी एसओजी अमेठी मय हमराह व उ0नि0 तनुज पाल चौकी प्रभारी इन्हौना थाना शिवरतनगंज संयुक्त टीम द्वारा तलाश वांछित अपराधी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना क्षेत्र शिवरतनगंज के सरैया सलारपुर मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया । जिससे उ0नि0 तनुज पाल घायल हो गये । आत्मरक्षार्थ प्र0नि0 शिवरतनगंज, उ0नि0 तनुज पाल व एसओजी प्रभारी विनोद यादव द्वारा अपने-अपने सर्विस पिस्टल से फायर किया गया जिसमें एक बदमाश घायल होकर गिर गया तथा दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल से भागने में सफल रहा । घायल बदमाश से पूछने पर अपना नाम अविनाश कुमार गौतम पुत्र विजय बहादुर गौतम नि0 हीड़ी पकड़िया थाना महरुआ जनपद अम्बेडकर नगर बताया । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व तमंचे की नाल से 01 अदद खोखा कारतूस व लूट के 10 हजार 300 रुपये नगद, 01 आधार कार्ड बरामद हुआ । बरामद रूपयों के बारे में बताया कि रुपये उसी लूट के है । फरार अभियुक्त का नाम विजय विक्रम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र स्व0 सुमन बहादुर सिंह नि0 पूरे अमेठियन मजरे भानीपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी बताया । थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अविनाश कुमार गौतम ने बताया कि दिनांक 21.08.2021 को दोपहर करीब 02:00 बजे दिन में मैं अपने साथी विजय विक्रम सिंह उर्फ राहुल सिंह के साथ मिलकर अहोरवा भवानी से आगे जाने वाली सड़क पर एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति से 32 हजार रुपए छीनकर व्यक्ति के पैर में गोली मारकर भाग गया था, साथ में उस व्यक्ति का आधारकार्ड व पैनकार्ड भी आ गया था ।

गिरफ्तारी का स्थान- सरैया सलारपुर मोड़ के पास, **दिनांक:-** 29.08.2021, **समय:-** 00:30 बजे रात्रि

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

- अविनाश कुमार गौतम पुत्र विजय बहादुर गौतम नि० हीडी पकडिया थाना महरूआ जनपद अम्बेडर नगर ।

फरार अभियुक्त का नाम-

- विजय विक्रम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र स्व० सुमन बहादुर सिंह नि० पूरे अमेठियन मजरे भानीपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 01 खोखा कारतूस 315 बोर
2. लूट का 10 हजार 300 रुपये नगद
3. 01 अदद लूट से संबंधित आधारकार्ड

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु०अ०सं० 191/21 धारा 394,411 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 205/21 धारा 307 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 206/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

थाना शिवरतनगंज

1. प्र०नि० धीरेन्द्र सिंह
2. उ०नि० उपेन्द्र प्रताप सिंह
3. उ०नि० तनुज कुमार पाल
4. हे०का० भूपेश कन्नौजिया
5. हे०का० राजेश यादव
6. हे०का० जितेन्द्र सिंह
7. का० विपिन तिवारी
8. का० सौरभ वर्मा
9. का० अजीत यादव
10. का० शिवम कुमार

एसओजी अमेठी

1. उ०नि० विनोद यादव,
2. हे०का० सोनू यादव,
3. हे०का० मतलूब अहमद
4. का० धीरेन्द्र कुमार,
5. का० अवनीश कुमार मौर्य,
6. का० अंकित पाण्डेय
7. का० ज्ञानेन्द्र सिंह
8. का० अमित मिश्रा
9. का० बृजेश विश्वकर्मा
10. का० सतीश गुप्ता
11. का० शिव प्रकाश मौर्या

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास- अविनाश कुमार गौतम

1. मु०अ०सं० 9/21 धारा 307/34 भादवि थाना महरूआ जनपद अम्बेडकर नगर ।
2. मु०अ०सं० 97/18 धारा 392 भादवि थाना महरूआ जनपद अम्बेडकर नगर ।
3. मु०अ०सं० 199/18 धारा 394/411 भादवि थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर ।
4. मु०अ०सं० 238/18 धारा 395/397/34/412 भादवि थाना दोसपुर जनपद सुल्तानपुर ।
5. मु०अ०सं० 147/18 धारा 307 भादवि थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर ।